

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...



आज का स्वमान

“मै दिव्यता की मुरत शिवबाबा की संतान हूँ”

चिंतन: “आज दिन भर में जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा उस व्यक्ति के आदि स्वरूप को देखकर उसके संपर्क में आना है, उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप जो भी है आदीकाल* में तो सतोप्रधान ही था।

(*जभी उनका पार्ट धरती पर आरम्भ हुआ)”


परिणाम (output)- इन आँखों से जो भी विकर्म हमने किया है वह विकर्म विनाश होता है।

आज की क्रिएटिव एक्टिविटी



आज पुरे दिन भर जिनके भी संबंध संपर्क मे आयेंगे या जिनके उपर भी आपकी दृष्टी पड़ेगी उसको आत्मस्वरूप मे देखना है ये “सब बाबा के बच्चे है मुक्ती के अधिकारी है” ऐसा संकल्प करना है।





सम्पूर्णता की ओर

समस्या का काम हैं आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम हैं समाधान स्वरूप हो समस्या का परिवर्तन करना। क्यों ? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी लेकिन आप उसे निश्चयबुद्धि विजयी स्वरूप से, न थिंग न्यु समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे।

**भगवान का प्यार हमारे अन्दर के काँटों जैसे
अवगुण को फूल जैसे गुणों में बदल देता है।**





कर्मभूमि की दुनिया में श्रम
सभी को करना पड़ता है, भगवान
सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही
भरना है।



अव्यक्त शिक्षाएँ

एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊँचा नशा दूसरे तरफ़ जितना ऊँचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे वा क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। कैसा भी अहंकार के नशे में 'मैं, मैं' करने वाला हो लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं, मैं के बजाए 'बाबा-बाबा' कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाए शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से, करते सिद्ध हैं लेकिन अज्ञानी, सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियाँ समान और साथ चाहिए। क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे।



शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन
जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते -

“आपका बहुत - बहुत शुक्रिया 🙏 🙏
आप ना आते, तो हम झुकते नहीं,
हम झुकते नहीं, तो हमारा अहंकार घटता नहीं,
अहंकार घटा, तो हमने सही कर्म किये,
सही कर्म ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया,
आपने हमारा भाग्य बिगाड़ा नहीं, संवारा है”



Whatever you think about
is revealed through your face.

Think happy thoughts,
and they will be visible
on your face -

in your smile.

- Dadi Janki



www.dadijanki.org





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org